

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 09.10.2020

एक अभियुक्त, 450 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार (थाना कुण्डा)-

जनपद के थाना कुण्डा से व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार चौहान मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र कुण्डा के बिदासिन नहर पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति संतोष सिंह पुत्र बट्टी नारायण सिंह निवासी शकरदहा, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को 450 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त उपर्युक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 441/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- संतोष सिंह पुत्र बट्टी नारायण सिंह निवासी शकरदहा, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 450 ग्राम अवैध गांजा।

पुलिस टीम- व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार चौहान मय हमराह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधिकारी का मो0नं0 हैक करके, प्र0नि0 थाना उदयपुर से पैसे की मांग करने वाला एक व्यक्ति (फॉयर सर्विस का सिपाही) गिरफ्तार:-

जनपद के फायर सर्विस स्टेशन सांगीपुर में नियुक्त आरक्षी दीना पुत्र कल्लू निवासी छपर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधिकारी का मो0नं0 हैक कर प्र0नि0 थाना उदयपुर से पैसे की मांग की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/20 धारा 384, 419, 420 भादंवि व 43/66C IT ACT बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना/जांच से उपर्युक्त आरक्षी दीना का नाम प्रकाश में आया है जिसे आज दिनांक 09.10.2020 को उ0नि0 मुन्नीलाल मय हमराह थाना उदयपुर द्वारा थानाक्षेत्र उदयपुर के अठेहा तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- दीना पुत्र कल्लू निवासी छपर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर।

पुलिस टीम- उ0नि0 मुन्नीलाल मय हमराह थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

- जनपद के थाना कंधई से प्र0नि0 तुषार दत्त त्यागी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 271/20 धारा 326, 308, 392, 436, 504, 506 भादंवि में वांछित अभियुक्त अजय सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र शमसेर सिंह निवासी नौहर हुसैनपुर थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कंधई के रखरखा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक – 09.10.2020